



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2002/फाल्गुन 17, 1923

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2002/PHALGUNA 17, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2002

**सा.का.नि. 180(अ).**—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ मंलग्न अनुसूची में दर्शित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

### अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतद्वारा कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) विनियम, 1964 में निम्नलिखित विनियम संशोधन लाने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के शर्त पर बनाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

### कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) विनियम, 2002

1. इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2002 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) विनियम, 1964 में संलग्न अनुसूची 'क' में निम्नलिखित भर्ती नियम क्रम संख्या 6 एवं क्रम सं. 8 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए :—

क्रम सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
6.	संरक्षणीय एवं अनुसंधान अधिकारी	1	श्रेणी I	10750-16750 रु.	चयन	40 वर्ष

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता/  
अनुभव

पदोन्नति के मामलों में (क) आयु (ख) शैक्षिक  
योग्यताएं/अनुभव जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित  
हैं लागू हैं कि नहीं

परिबीक्षा की अवधि

8	9	10
सांख्यिकी/गणित/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर उपाधि या कम्प्यूटर विज्ञान के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री <b>अनुभव :</b> सांख्यिकीय अनुसन्धान/आर्थिक जांच में प्रबन्धकीय स्तर पर 5 साल का अनुभव।	आयु : नहीं योग्यता : हाँ अनुभव : कालम 12 के अनुसार	2 वर्ष

भर्ती की रीति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामलों में किस श्रेणी से किया जाना चाहिए	टिप्पणी
11	12	13
पदोन्नति जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	अनुसंधान अधिकारी के पद में 2 वर्ष की नियमित सेवा वालों से पदोन्नति	

1	2	3	4	5	6	7
8.	औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी	1	श्रेणी I	10750~ 16750 रु.	चयन	40 वर्ष

8	9	10
सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबन्धन/ औद्योगिक सम्बन्ध में स्नातकोत्तर उपाधि या उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में डिप्लोमा के साथ डिग्री या श्रम विधि वैकल्पिक विषय के साथ विधि में डिग्री। <b>अनुभव :</b> श्रम से सम्बन्धित काम में प्रबन्धकीय स्तर पर 5 वर्ष का अनुभव। मलयालम की जानकारी	आयु : नहीं योग्यता : हाँ अनुभव : कालम 12 के अनुसार	—

11	12	13
पदोन्नति जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा	3 साल के नियमित सेवा वाले कल्याण अधिकारी से पदोन्नति	

[फ़. सं. पीआर-12012/4/2001-पीई-I]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** मुख्य विनियम भारतीय राजपत्र के दि. 29-2-1964 के सा.क्र.नि. संख्या 314 में प्रकाशित तथा अंत में 07-8-2000 के सा.क्र.नि. संख्या 652(अ) के अनुसार संशोधित।

#### MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2002

**G.S.R. 180(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Amendment Regulations, 2002 made by the Board of Trustees of Port of the Cochin as set out in the schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE**

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Cochin Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1954 subject to the approval of the Central Government and the same is published in the Official Gazette under section 124 of the said Act

**THE COCHIN PORT EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 2002.**

1 These regulations may be called "the Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Amendment Regulations, 2002 "

2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

3 In the Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964 in Schedule 'A' annexed thereto, the following recruitment rules shall be substituted as Sl No 6 and Sl No 8

Sl No	Designation	No of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
6	Statistical and Research Officer	1	Class I	Rs 10,750-16,750	Selection	40 years
8	Industrial Relations Officer	1	Class I	Rs 10,750-16,750	Selection	40 years

Educational qualifications/experience required for direct recruits	Whether (a) age (b) educational qualifications, experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion by various methods	Period of Probation
8	9	10
Master's Degree in Statistics/Mathematics/Economics/Computer Applications OR Degree in Engg with Computer Science <b>Experience</b> : 5 years in a supervisory capacity in Statistical Research/Economic Investigation	<b>Age</b> : No <b>Qualification</b> : Yes <b>Experience</b> : As in Col 12	Two years
Master's Degree in Social Work/Labour Welfare/Personnel Management/Industrial Relations OR Degree with Diploma in any one of the above subjects OR Degree in Law with Labour Laws as an elective subject <b>Experience</b> : 5 years in a Managerial capacity dealing with Labour <b>Desirable</b> : Knowledge of Malayalam	<b>Age</b> : No <b>Qualification</b> : Yes <b>Experience</b> : As in Col 12	—

Method of recruitment	In case of promotions/deputations/Transfer, grades from which it should be made	Remarks
11	12	13
Promotion failing which direct recruitment	Promotion from Research Officer with two years regular service in the grade	
Promotion failing which direct recruitment	Promotion from Welfare Officer with three years regular service in the grade	

[FNo PR-12012/4/2001-PE-1]

R. K. JAIN, Jt. Secy

**Foot Note** : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide G S R No 314 dated 29-2-1964 and lastly amended vide G S R No 652(E) dated 7-8-2000

